

Date: 20.07.2024

The Secretary
Listing Department

BSE Limited
PJ Towers, Dalal Street,
Mumbai - 400 001

Script Code: 532696

The Secretary
Listing Department
National Stock Exchange of India Limited
Exchange Plaza, 5th Floor,
Plot No. C/1, G Block, Bandra Kurla
Complex, Bandra (East), Mumbai 400051
Script Code: EDUCOMP

Sub: Copies Of Newspaper Advertisement for Standalone Financial Results for The Quarter Ended on March 31, 2024.

Dear Sir / Madam,

The company has published the unaudited Financial Results for the quarter ended on March 31, 2024. Please find enclosed herewith copies of the Newspaper Advertisements published by the Company in the newspapers i.e. Business Standard (English Language) and Business Standard ((Hindi Regional Language) on July 20, 2024.

The above may please be treated in compliance of Regulation 47 and Regulation 30 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, read with Part A of Schedule III of the said Regulations.

This is for your information and records.

Thanking You, Yours Truly,

For Educomp Solutions Limited

Mahender Khandelwal

Caretaker Resolution Professional in the matter of Educomp Solutions Limited

GURGAON

Email: [mkipeducomp@bdo.in]

IBBI Registration No.: [IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/ 10086]

Note: As informed earlier also vide various communications, had ordered the commencement of CIRP in respect of the Company under the provisions of Code. Thereafter, in accordance with Section 17 of the Code, the powers of the Board stood suspended and Dr. Sanjeev Aggarwal was appointed as interim resolution professional of the Company. The IRP carried out his duties from May 30, 2017 till Mr. Mahender Khandelwal was appointed as Resolution Professional ("RP") vide the order of NCLT dated September 12, 2017 and took over the management of the affairs of the Company. On 9th October, 2023 the resolution plan is approved by the NCLT which is yet to be implemented. Thereafter, on November 23, 2023 the NCLT has ordered that the RP would act as caretaker qua the CD and in such capacity, he would discharge all those functions as are required to be discharged by an IP as RP.

Educomp Solutions Limited (CIN: L74999DL1994PLC061353)

Corporate office: 514, Udyog Vihar, Phase III, Gurgaon – 122001, Haryana (INDIA). Tel.: 91-124-4529000.

Registered Office: L-314 (Ground and First floor), Gali No.7, Mahipalpur, New Delhi-110037.

(Rs. in Lakhs)

CONSOLIDATED

THE SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED (A Government Company) Regd. Office: Kothagudem-507101, Telangana.

E-PROCUREMENT TENDER NOTICE

Tenders have been published for the following Services / Material Procurement through e-procurement platform. For details, please visit https://tender.telangana.gov.in - or - https://www.scclmines.com MIT/Enquiry No. Description / Subject - Last date and time for Submission of bid(s)

E0624O0121 - Procurement of Diesel operated Crawler mounted Hydraulic excavator of 3 Cu. capacity with backhoe attachment for handling sand stone, overburden and coal in OC Mines will Spare Parts Cost Cap Contract for a period of 07 Years/35,000 hours, whichever is earlier 29.07.2024 - 17:00 Hrs.

E0124O0126 - Procurement of Emergency Response Vehicle for STPP - 29.07.2024 - 17:00 Hrs. E032400129 - Service contract for Operating the Cath Lab at SCCL Area Hospital, RG-1 for a period of 7 years - 29.07.2024-17:00 Hrs.
E032400091 - Analysis of medicines at Govt Approved NABL accredited labs for a period of 2 years - 30.07.2024 - 17:00 Hrs.

E062400123 - Procurement of 1 No. of Diesel Operated Crawler Mounted Surface Miner with Drum width of not less than 3800 MM for Cutting & Sizing of coal and coal major strata in opencast mines with spare parts cost cap contract of 09 years / 32,000 hours whichever is earlier - 30.07.2024 - 17:00 Hrs. E0324O0130 - Procurement of Cath Lab Machine/Console & other Items for establishr Cath Lab facility at Area Hospital, RG-1-30.07.2024-17:00 Hrs. GF GM (MP)

NIT/Enquiry No.- Description / Subject / Estimated Contract Value - Last date and time. CRP/CVL/MMR/TN-36/2024-25, D1.13.07.2024 - Construction of compound wall with pre-stressed posts and panels including barbed wire & 2 nos. 450mm dia concertina coils along the periphery of Kasipet-2 Incline Mine, Mandamarri Area, Mancherial Dist, Telangana State - 29.07.2024 - 04.30 P.M.

CRP/CVL/BHP/TN-37/2024-25, Dt.13.07.2024 - Construction of Retaining wall, 2x100 cum capacity steel bunkers, 3.75 m WBM approach road, ramp for sand stowing bunker & 1.50 Lakh gallons RCC ground level water tank for sand stowing arrangements at KTK-5 incline, Bhupalpalli Area, Jayashankar Bhupalpalli District, Telanagana State. Rs. 1,68,96,366/- 29.07.2024 - 04.30 RM. GM (Civil) CW/RD/e-37/2024-25, dt.11.07.2024 - Construction of RCC Sump for raw sewage collection and providing shed over platform at Ayyagaripeta at Sathupalli, Khammam dist. Rs. 26,67,752/-26.07.2024-04.30 P.M.

CW/RD/e-38/2024-25, dt.13.07.2024 - Providing sheds for light weight motar vehicle repair shed at VR CHP Sathupalli, Kothagudem Area. Rs. 25,86,610.33 - 29.07.2024-04.30 P.M.

Andhra Paper Limited

Serving you with pride..

(Corporate Identity Number: L21010AP1964PLC001008)

Regd. Office: Rajahmundry - 533 105, East Godavari District, Andhra Pradesh, India. Tel: +91-883-2471831

Corp. Office: 31, Chowringhee Road, Park Street, Kolkata - 700 016, West Bengal, India. Tel: +91-33-71500500

Website: www.andhrapaper.com E-mail: bijaykumar.sanku@andhrapaper.com

NOTICE OF THE 60TH ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING

NOTICE is hereby given that the 60th Annual General Meeting ('AGM' or 'Meeting') of the Members of Andhra Paper

Limited ('the Company') will be held on Monday, August 12, 2024 at 11.30 A.M through Video Conferencing ('VC') / Other Audio Visual Means ('OAVM') to transact the business set out in the Notice of the AGM in compliance with the applicable

provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirments) Regulations, 2015 (SEBI LODR Regulations) and the relevant circulars issued by Ministry of Corporate Affairs and SEBI in this regards.

The Annual Report of the Company for the financial year 2023-24 including Notice of 60th AGM has been sent on July 19,

2024 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Company/Registrar & Transfer Agent, KFin Technologies Limited ("Kfintech") as on Friday, July 12, 2024 in accordance with MCA and SEBI circulars.

The Annual Report 2023-24 including 60th AGM Notice of the Company is available on the website of the Company at https://andhrapaper.com/investor-agm-2024/ and also on the website of Kfintech at https://evoting.kfintech.com. A copy of

the same is also available on the websites of the stock exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. at

n compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rules made thereunder and

Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is offering

remote e-voting facility to all the Members of the Company before and during the AGM, in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed Kfintech, for facilitating voting through electronic

The detailed instructions for remote e-voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the

05:00 P.M. on Sunday, August 11, 2024

Remote e-voting shall not be allowed beyond the said date and time and the facility shall forthwith be blocked. Once the

vote on a Resolution has been cast by the Member, he/she shall not be allowed to change it subsequently or cast the vote

b. The facility of remote e-voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting and who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right during the

c. The voting rights of the Members shall be in proportion to the number of shares held by them in the paid-up equity share capital of the Company as on Monday, August 05, 2024 ('cut-off date'). A person whose name is recorded in the Register

d. Any person, who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Annual Report including the Notice of AGM electronically, and holds shares as of the cut-off date may obtain the login ID

of Members/Register of Beneficial Owners as on the cut-off date only shall be entitled to avail the facility of remote

and password by sending e-mail request to emeetings@kfintech.com or may contact on 1-800-3094-001 (toll free), as provided by Kfintech. However, if he/she is already registered with Kfintech for remote e-Voting, then he/she can use his/

e. Members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM will also be eligible to participate in the AGM

Member may send an e-mail request to einward.ris@kfintech.com along with scanned copy of the signed request letter

providing the email address, mobile number, self-attested PAN copy and Client Master copy in case of electronic holding /

copy of share certificate in case of physical holding for receiving the Annual report including Notice of AGM and the e-voting

For permanent registration of e-mail addresses, the Members holding shares in demat form are requested to update the

same with their respective DP and in case of Members holding the shares in physical form are requested to update the same

The information about login credentials to be used and the steps to be followed for attending the AGM through VC / OAVM

Members may either call Kfintech Toll Free Number 1-800-3094-001 or send an e-mail request to: einward.ris@kfintech.

com / emeetings@kfintech.com for all queries on e-voting, AGM related matters. Alternatively, Members may contact

Mr. Ashok Babu Yaramaneni, Deputy Manager (Secretarial), Rajahmundry – 533105, East Godavari District, Andhra Pradesh, Telephone No. +91-883-2562871; E-mail ID: aplinvestorrelations@andhrapaper.com.

a. The remote e-voting facility will be available during the following voting period (both days inclusive):

Commencement of remote e-voting 09:00 A.M. on Wednesday, August 07, 2024

DIPR RO No: 192-PP/CL-AGENCY/ADVT/1/2024-25

 $\underline{www.bseindia.com} \ and \ \underline{www.nseindia.com}.$

End of remote e-voting

e-voting before/during the AGM;

Registration of e-mail addresses

her existing User ID and Password; and

with the Registrar by submitting Form ISR-1.

are also included in the Notice of the AGM.

Joining the AGM through VC / OAVM

through VC/OAVM facility but shall not be entitled to cast their vote again.

Remote e-voting

following

GOPIKISHAN S DAMANI (PAN ACPD6380Q) holding 15 shares of Face Value Rs. 100/- in Bosch Limited (formerly: Moto Industries Company Limited) having its registered office at Hosur Road, Adugodi, Bangalore 560030 in Folio D02758 bearing Share Certificate Number 00186176, 00209374 and VN002612 with Distinctive Numbers from 1171237 - 3171241, 3285937 - 3285941 and 17346 - 717350.

hereby give notice that the said Share certificate(s) are lost and I have applied to the company for issue of duplicate Share Certificates and exchange of the same with Face Value Rs.10/- certificate. The public is hereby warned against purchasing or dealing in anyway with the said Share Certificates. The Company may issue duplicate Share Certificates if no objection is eceived by the Company within 30 days of the bublication of this advertisement, after which no laim will be entertained by the Company in that behalf.

GOPIKISHAN S DAMANI Date : 20.07.2024 Folio No : D02758



PATANJALI FOODS LIMITED

CIN: L15140MH1986PLC038536 Regd. Office: 616, Tulsiani Chambers, Nariman Point, Mumbai -400021

STANDALONE

Statement of Standalone and Consolidated Unaudited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2024

	S. No.	Particulars	Quarter Ended		Year Ended	Quarter Ended
t	140.		30.06.2024 (Unaudited)	30.06.2023 (Unaudited)	31.03.2024 (Audited)	30.06.2024 (Unaudited)
	1	Total Income from Operations	7,17,305.97	7,76,710.09	31,72,135.45	7,17,305.97
ı	2	Net Profit/(Loss) (before Tax, Exceptional and/or				
┚	l	Extraordinary items)	35,915.47	11,950.24	1,06,008.52	35,897.81
_	3	Net Profit/(Loss) before tax (after Exceptional and/or				
	١. ا	Extraordinary items)	35,915.47	11,950.24	1,06,008.52	35,897.81
	4	Net Profit/(Loss) after tax (after Exceptional and/or				
	٦	Extraordinary items)	26,290.15	8,775.11	76,515.09	26,272.49
	5	Total Comprehensive Income [Comprising Profit/(Loss) (after tax) and Other Comprehensive				
	l	Income (after tax)]	25.858.01	8.840.49	77,946,29	25.840.35
	6	Equity Share Capital	7,238.37	7,238.37	7,238.37	7,238.37
	7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown	7,250.57	7,200.07	7,200.07	7,200.07
	ľ	in the Audited Balance Sheet of the previous year	_		10,13,292.95	
	8a.				,,	
	l	extraordinay and exceptional items)*Not annualised				
	l	1. Basic :	7.26*	2.42*	21.14	7.26*
	l	2. Diluted :	7.26*	2.42*	21.14	7.26*
	8b.	3				
	l	extraordinay and exceptional items) *Not annualised				
	l	1. Basic :	7.26*	2.42*	21.14	7.26*
		2. Diluted :	7.26*	2.42*	21.14	7.26*

Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Company-www.patanjalifoods.com and on the Stock Exchange websites www.bseindia.com and www.nseindia.com.

For AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS Place: Haridwa Managing Director



Educomp EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED

CIN: L74999DL1994PLC061353

Regd. Office: L - 314 (Ground and First floor), Gali No. - 7, Mahipalpur, New Delhi-110037 E-mail: investor.services@educomp.com, Website: www.educomp.com

STATEMENT OF FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED MARCH 31, 2024							
SI.		Quarter Ended			(Rupees in lacs) Year Ended		
No.		31/03/2024 (Unaudited)	31/12/2023 (Unaudited)	31/03/2023 (Unaudited)	31/03/2024 (Audited)	31/03/2023 (Audited)	
1.	Total Income from operations (net)	57.81	88.37	129.29	413.94	398.23	
2.	Net Profit/(Loss) for the period before tax, exceptional items and extraordinary item	(1,595.27)	(304.84)	114.89	(3,380.99)	(8,023.37)	
3.	Net Profit/(Loss) for the period before tax but after exceptional items and extraordinary item	(1,595.27)	(304.84)	114.89	(3,380.99)	(8,023.37)	
4.	Net Profit/(Loss) for the period after tax, exceptional items and extraordinary item	(1,595.27)	(304.84)	114.89	(3,380.99)	(8,023.37)	
5.	Total Comprehensive income	(1,594.84)	(304.84)	114.76	(3,380.56)	(8,023.50)	
6.	Paid up Equity share capital (Face Value Rs. 2/- each)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	
7.	Reserve excluding revaluation reserves	(3,13,777.78)	(3,12,182.94)	(3,10,397.22)	(3,13,777.78)	(3,10,397.22)	
8.	Securities Premium Account	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	
9.	Net worth	(3,06,083.97)	(3,04,499.53)	(3,02,703.41)	(3,06,083.97)	(3,02,703.41)	
10.	Paid up Debt Capital/outstanding debt	2,65,665.79	2,65,391.47	2,64,057.84	2,65,665.79	2,64,057.84	
11. 12.	Outstanding Redeemable Preferences Shares Debt Equity Ratio	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.87)	
13.	(Loss)/ Earning Per Share (before and after extraordinary items) (not annualized)						
	(a) Basic	(1.30)	(0.25)	0.09	(2.76)	(6.55)	
	(b) Diluted	(1.30)	(0.25)	0.09	(2.76)	(6.55)	
14.	Capital Redemption Reserve	-	-	-	-	-	

Place : New Delhi

Date: 19/07/2024

15. Debenture Redemption Reserve

Debt Service Coverage Ratio

Interest Service Coverage Ratio

The above results is an extracts of the detailed format of Unaudited Financials Results for the quarter and year ended 31st March, 2024 filed with Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarter and year ended results is available on the Stock Exchange Website namely, BSE Limited, (www.bseindia.com) National Stock Exchange of India Limited (www.nseindia.com) and on the Company's Website (www.educomp.com)

(9.85)

(1.05)

For Educomp Solutions Limited

(4.76)

(4.81)

(14.67)

(14.73)

MAHENDER KHANDELWAL TAKEN ON RECORD CARETAKER RESOLUTION PROFESSIONAL OF **EDUCOMP SOLUTIONS LIMITED** REGISTRATION NUMBER:-IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

Godrej Industries Limited

CIN: L24241MH1988PLC097781 Registered Office: Godrej One, Pirojshanagar, Eastern Express Highway, Vikhroli (East), Mumbai - 400 079, Maharashtra Tel.: 022- 2518 8010; Fax: 022- 2518 8066

 $\textbf{Website:} \ \underline{www.godrejindustries.com}; \ \ \textbf{Email id:} \ \underline{investor@godrejinds.com}$

NOTICE OF 36TH (THIRTY SIXTH) ANNUAL GENERAL MEETING. E-VOTING INFORMATION AND NOTICE OF BOOK CLOSURE

otice is hereby given that the 36th (Thirty Sixth) Annual General Meeting ("AGM") of the Mer of Godrej Industries Limited ("the Company") will be held on Tuesday, August 13, 2024 at 3:00 p.m. (IST) through Video Conferencing ("VC") / Other Audio Visual Means ("OAVM") to transact the businesses as set out in the Notice of AGM dated May 17, 2024. The venue for the AGM shall be deemed to be the Registered Office of the Company.

A copy of the AGM Notice along with Annual Report for the Financial Year 2023-24 is available on the website of the Company at www.podrejindustries.com and on the websites of the Stook Exchanges where the securities of the Company are listed, viz., BSE Limited - www.bseindia.com and Nationa Stock Exchange of India Limited - www.nseindia.com. A copy of the AGM Notice is also available on the website of CDSL at www.evotingindia.com.

The forthcoming 36th (Thirty Sixth) AGM of the Company will be held through VC / OAVM, in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("the Act"), the Rules framed thereunder, the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations" (including any modification(s), re-enactment(s) and amendment(s) thereof for time being in force), read with General Circular Nos.14/2020, 17/2020 and 20/2020 dated April 8, 2020, April 13, 2020, May 5, 2020, respectively, General Circular No. 09/2023 dated September 25, 2023, issued by the Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") read with SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CMD1/CIR/P/2020/78 dated May 12, 2020 and SEBI Circular No. SEBI/HO/CFD/CFD-PoD-2/P/CIR/2023/167 dated Octobe 7, 2023, issued by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars") and the provisions of Secretarial Standard-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, without physical presence of the Shareholders at a common venue, Members attending the AGM through VC / OAVM shall be counted for the purpose of reckoning the quorum under Section 103 of the Act. The Notice of the 36th AGM together with the Explanatory Statement thereto in terms of Section 102 of the Act along with the Audited Standalone and Consolidated Financial Statements, Board's Report and the Statutory Auditors' Report (collectively referred to as "Annual Report") thereon for the Financial Yea ended March 31, 2024, have been sent only electronically to those Members whose e-mail address are registered with the Company / Depository Participant(s) / Registrar and Share Transfer Agent as or Friday, July 12, 2024.

BOOK CLOSURE

Notice is hereby given pursuant to Section 91 of the Act and Regulation 42 of the Listing Regulations that the Register of Shareholders and Share Transfer Books of the Company will remain closed for the purpose of the 36th (Thirty Sixth) AGM from Tuesday, August 6, 2024 to Tuesday, August 13, 2024 (both days inclusive).

VOTING THROUGH ELECTRONIC MODE

Members are hereby informed that in compliance with the provisions of Section 108 of the Act, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 [including any modification]s amendment(s) or re-enactment(s) thereof], Regulation 44 of the Listing Regulations, Secretaria Standard - 2 (SS-2) on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, MCA Circulars and SEBI Circulars mentioned herein above and in terms of the SEBI Circular No. SEBI/HO/ CFD/CMD/CIR/P/2020/242 dated December 9, 2020:

- The Company is pleased to offer to its Members the facility to exercise their right to vote on the resolutions proposed to be passed at the 36th AGM by electronic means and the business are to be resolutions proposed to be passed at the 50° -x80m by electronic interials and the business are to be transacted through the e-voting services ("remote e-voting") provided by Central Depositiony Services (India) Limited ("CDSL"). The Company is also providing e-voting facility ("e-voting") at the AGM to be held through VC/OAVM facility and the Members who have not already cast their vote by remote e-voting shall be able to exercise their right to vote during the AGM, through e-voting.
- The voting rights of the Members (for voting through remote e-voting or e-voting at the AGM) sha be in proportion to their share in the Paid-up Equity Share Capital of the Company as on the Cut-of Date, i.e., Tuesday, August 6, 2024. A person whose name is recorded in the Register of Shareholders or in the Register of Beneficial Owners maintained by the Depositories / Registrar and Share Transfer Agents as on the Cut-off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e voting as well as e-voting at the AGM.
- The instructions for remote e-voting and e-voting during the AGM are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note that the remote e-voting will commence on **Friday, August 9, 2024** at 9:00 a.m. (IST) and will end on Monday, August 12, 2024 at 5:00 p.m. (IST). The remote evoting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time. During this period, Members of the Company holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the **cut-off date**, i.e. **Tuesday August 6, 2024**, may cast their vote by remote e-voting on the resolutions specified in the Notice of the resolutions. the AGM. Member who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM to be held through VC / OAVM, but they shall not be entitled to cast their vote again. Once the vote on a resolution is cast by the Member, they shall not be allowed to change it subsequently.
- Any person who acquires Shares of the Company and becomes a Shareholder of the Company after the dispatch of the AGM Notice and holds shares as on the Cut-off Date, may follow the instructions for voting on the resolutions as mentioned at point no. 19 of the Notes to the Notice
- The Company has appointed Mr. Kalidas Vanjpe, Practicing Company Secretary (Membership No. FCS 7132) or failing him Mr. Ashok Ramani (Membership No. FCS 6808) of M/s. A. N. Ramani & Co. LLP, Company Secretaries as the Scrutinizers to scrutinize the remote e-voting and e-voting process, in a fair and transparent manner.
- The manner of 'remote e-voting' and 'e-voting' during the AGM, for Members holding shares in physical mode, dematerialized mode and for Members who have not registered their e-mail addresse s provided in detail in the Notice of the AGM.
- Members who would like to express their views or ask questions during the AGM may register themselves as a speaker(s) by sending their request from their registered email address mentioning their Name, DP ID and Client ID / Folio Number, PAN, Mobile Number along with their queries t investor@godrejinds.com from Wednesday, July 31, 2024 (9:00 a.m. IST) to Friday, August 9, 2024 (5:00 p.m. IST).

The results of the remote e-voting and votes cast at the AGM shall be declared not later than 4 (Forty-Eight) hours from the conclusion of the AGM. The Results declared, along with the Scrutinizer's Report, shall be placed on the Company's website, viz., www.godrejindustries.com, immediately after their declaration, and will be communicated to CDSL, viz., www.evotingindia.com and BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited.

In case you have any queries or issues regarding remote e-voting / e-voting at the AGM, the Membe may contact CDSL at helpdesk.evoting@cdslindia.com or call 1800 22 55 33.

Members holding shares in electronic form and who have not updated their email ids or KYC details are requested to register/update the details in their demat account, as per the process advised by their Depository Participant. Members holding shares in physical form who have not updated their email ids or KYC details are requested to register/update the said details in the prescribed Form ISR-1 with Registrar and Share Transfer Agent of the Company i.e., Computech Sharecap Limited, Members are also recommended to complete their nomination in the prescribed Form SH-13. Members can access the relevant forms on the Company's website https://www.godrejindustries.com/investors/ investors-information

By order of the Board of Director For Godrej Industries Limited Tejal Jariwala Company Secretary & Compliance Office

(FCS 9817)

Phoenix ARC

Place: Rajahmundry

Date : July 19, 2024

Phoenix ARC Private Limited

For ANDHRA PAPER LIMITED

BIJAY KUMAR SANKU

mpany Secretary M.No: A 15449

Regd. Office: 3rd Floor, Wallace Towers, 139-140/B/1, Crossing of Sahar Road and Wstern Express Highway, Vile Parle East, Mumbai, Maharashtra - 400057, India. Tel: 022- 6849 2450, Fax: 022- 6741 2313 Email: compliance@phoenixarc.co.in Website: www.phoenixarc.co.in Extract of unaudited financial results for the quarter ended June 30, 2024

				(Rs. in Lakhs
Sr. No.	Particulars	Quarter	Year ended	
		June 30, 2024 (Unaudited)	June 30, 2023 (Unaudited)	March 31, 2024 (Audited)
1	Total Income from operations	13,079.07	7,713.25	42,312.85
2	Net profit for the period (before tax, exceptional and extraordinary items)	7,443.57	4,626.08	28,043.0
3	Net profit for the period before tax (after exceptional and extraordinary items)	7,443.57	4,626.08	28,043.08
4	Net profit for the period after tax (after exceptional and extraordinary items)	5,543.98	3,445.61	20,919.95
5	Total comprehensive income for the period [comprising profit for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	5,539.95	3,439.99	20,916.10
6	Paid up equity share capital (face value Rs.10 per share)	16,800.00	16,800.00	16,800.00
7	Reserves (excluding revaluation reserve)	81,520.37	58,504.33	75,980.4
8	Securities premium account	3,006.10	3,006.10	3,006.10
9	Net worth	98,320.37	75,304.33	92,780.45
10	Paid up debt capital / outstanding debt	97,070.40	105,462.18	107,648.65
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	
12	Debt equity ratio	0.99	1.40	1.10
13	Earnings per share (of Rs.10 each) (for continuing and discontinued operations) -			
	1. Basic	3.30	2.05	12.4
	2. Diluted	3.30	2.05	12.4
14	Capital redemption reserve	-	-	
15	Debenture redemption reserve	1,963.05	1,158.65	1,963.0
16	Debt service coverage ratio	0.11	0.09	0.39
17	Interest service coverage ratio	4.30	3.58	4.28

1. The above results have been reviewed & recommended for the Board approval by the Audit Committee, approved & taken on record by the Board of Directors at the meeting held on July 19, 2024 and reviewed by the Statutory Auditor.

2. The above is an extract of the detailed format of quarterly financial results filed with National Stock Exchange of India Limited under Regulation 52 of the Securities Exchange Board of India ("SEBI") (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the quarterly financial results are available on the websites of National Stock Exchange of India Limited at www.nseindia.com and the Company at www.phoenixarc.co.in. For the other line items referred in regulation 52 (4) of the Securities Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, pertinent disclosures have been made to the National Stock Exchange of India Limited and can be accessed on the www.nseindia.com.

3. The Company operates in a single reportable operating segment of asset reconstruction business as per the requirement of Ind AS 108- operations.

4. Figures for the previous period / year have been regrouped wherever necessary to conform to current period / year presentation Balan Wasudeo Venkattu Srinivasan

For and on behalf of the Board of Directors of Phoenix ARC Private Limited Place: Mumbai Director Director Date: July 19, 2024 DIN: 00073697 DIN: 01535417

Fedbank Financial Services Limited

1.96

Registered & Corporate Office: 1101, 11th Floor, Cignus, Plot No. 71A Powai Paspoli, Mumbai, Maharashtra-400087 Corporate Identity Number: L65910MH1995PLC364635 Tel: +91 22 68520601, Website: www.fedfina.com



Statement of Unaudited Financial Results for the Quarter ended June 30, 2024

Dated: July 20, 2024

					Rs.In Lakhs		
SI. No.	Particulars	For the Quarter ended		For the Year ended			
		June 30, 2024	June 30, 2024 June 30, 2023 Mar 31, 2024		Mar 31, 2024		
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)		
1	Total Income from Operations	47,731	36,139	40,758	1,57,721		
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	9,363	7,206	9,085	32,808		
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9,363	7,206	9,085	32,808		
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	7,023	5,388	6,766	24,470		
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	5,423	5,785	9,341	29,676		
6	Paid up Equity Share Capital	37,079	32,155	36,939	36,939		
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	85,595	35,756	80,321	80,321		
8	Securities Premium Account	1,09,551	52,341	1,08,823	1,08,823		
9	Net worth	2,32,225	1,20,252	2,26,083	2,26,083		
10	Paid up Debt Capital / Outstanding Debt	9,27,972	5,49,743	8,21,460	8,21,460		
11	Outstanding Redeemable Preference Shares	-	-	-	-		
12	Debt Equity Ratio	4.00	5.39	3.63	3.63		
13	13 Earnings Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) -						
	1. Basic	1.90	1.67	1.83	7.22		
	1. Diluted	1.88	1.67	1.81	7.12		
14	Capital Redemption Reserve	200	200	200	200		
15	Debenture Redemption Reserve	N/A	N/A	N/A	N/A		
16	Debt Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A		
17	Interest Service Coverage Ratio	N/A	N/A	N/A	N/A		
	Notes: a) The above unaudited financial results for the guarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board of						

e quarter ended June 30, 2024 have been reviewed by the Audit Committee and approved by Board o Directors at its meeting held on July 19, 2024.

The above is an extract of the detailed format of the financial results for the quarter ended June 30, 2024 filed with the Stock Exchanges under b) Regulation 33, Regulation 52(4) read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended. The full format of the financial results for the quarter ended June 30, 2024 are available on the websites of the Stock Exchanges BSE Limited "www.bseindia.com" and National Stock Exchange of İndia "www.nseindia.com" and on the Company's website "www.fedfina.com"

Fedbank Financial Services Limited (the 'Company') has prepared financial results (the 'Statement') for the quarter ended June 30, 2024 in accordance with Regulation 33, Regulation 52(4) read with Regulation 63 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and the Accounting Standards specified under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended and the relevant provisions of the Companies Act, 2013, as applicable

For and on behalf of Board of Directors Fedbank Financial Services Limited

> Anil Kothuri Managing Director & CEO DIN:00177945

Place : Mumbai

Date: July 19, 2024

3.23.04.2024

कृते कोटक महिंद्रा वैंक लिमिटेड

4. ₹. 12,03,710.40

(रुपये बारह लाख ती-

हजार सात सौ दस एवं पैसे

चालीस मात्र), ऋण खात सं. श्री राजेश गर्ग में दिनांव

50 years of converting news into economic intelligence.





कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए) (प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियमावली, 2002 के नियम 8(1) के साथ पठित परिशिष्ट IV के अनुसार)

पाँठत परिशिष्ट IV के अनुसार)
चूंकि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रविभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (अधिनियम सं. 2002 का 54) (सरफंसी अधिनियम) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शिवतियों के अनुपालन में इंडसइंड बँक ितिमेटेंड के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधोहस्ताक्षरी ने उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर 16.01.2024 तक उक्त मौजूदा सुचना में वर्णित राशि रू. 15.687.529.52/— (रुपए एक करोड़ छम्मन लाख सङ्सठ लाख पांच सौ उनतीस व बावन पैसे केवल) का भुगतान करने के लिए ऋण खाता सं. DAA00037N & DAA00099N के तहत ऋणी व सह-ऋणी मैसर्स लक्ष्मी इलिट्टक एंड मोटर वाइहिंग वर्स-इसके मातिक श्री गर्जद्व कुमार आर्म, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री मनी विजय लक्ष्मी शर्मा स्थान प्राप्ति हमार शर्मा, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री मनोज कुमार शर्मा, श्री संजय शर्मा वर्षिक श्री राज्व स्थान श्री संजय शर्मा व श्री राज्व स्थान स्थ

करणी / सह-क्रमणी राशि का मुगतान करने में असफल रहे, एतदद्वारा ऋणी और और सर्वसाधारण को सुचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमायली के नियम 9 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित नेम्नलिखित् संपद्ति पर **18 जुलाई, 2024** को कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से ऋणी / सह-ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्दृहारा संपत्ति के साथ लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन-देन 16.01.2024 तक राशि रू. 1,58.87,529.52/- (रुपए एक करोड़ रूपन लाख सङ्सठ लाख पांच सी उनतीस व बावन पैसे केवल) और उसपर भावी ब्याज, लागत, शुल्कों और उसपर ब्ययों के सहित के लिए इंडसईड बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

इंडसइंड बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा। **अचल संपत्ति का विषरण** प्लॉट नं. डी-01 पर निर्मित संपत्ति के सभी भाग व पासंल, क्षेत्र माप 334.44 वर्ग मीटर अर्थार् 400 वर्ग यार्ड चंद्रा पुरी कॉलोनी, मौउजा नरहुल, तहसील व जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश 281001 स्थित, सीरियल नं, 3160 दिनांक 31.03.2004 के तहत जिसकी सीमाए निम्नानुसार हैं : पूर्व गॅट नं. डी—02, पश्चिम : रोड, उत्तर् : दूसरों की भूमे, दक्षिण : प्लॉट नं इंडसइंड बैंक लिमिटेड, प्राधिकृत अधिकारी दिनांकः 18.07.2024 स्थानः उत्तर प्रदेश

यूको बैंक 衡 UCO BANK प्रधान कार्यालय

10, बी.टी.एम. सरणी, कोलकाता-700001 निविदा सचना

क्वालिफाइड इंस्टीट्यशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के माध्यम से इक्विटी पूंजी के संग्रह के लिए बुक रनिंग लीड मैनेजरों/मर्चेंट बैंकरों के चयन के लिए सेबी पंजीकृत श्रेणी-। मर्चेंट बैंकरों से मुहरबंद बोली आमंत्रित की जाती है। प्रस्ताव के लिए अनुरोध (आरएफपी) का विवरण हमारे बैंक की वेबसाइट www. ucobank.com और https:// www.tenderwizard.com/ UCOBANK के निविदा अनुभाग में उपलब्ध है। बोली जमा करने की अंतिम तिथि 9 अगस्त, 2024 है।

कृते यूको बैंक (सुजय दत्ता) तिथि:19.07.2024 मुख्य वित्तीय अधिकारी PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that Saransh Jain S/o Neeraj Kumar Jair R/O 1410, Sector-5, Vasundhra, Ghaziabad Uttar Pradesh, owner and possession of 2nd floor at Property no 154 block admeasuring plot area 150 sqmt (180 Sc yards Approx) with reserved car parking in common parking area in the can access mumty without permission bearing house no 154 block A . situated at south city 1 Gurgram Haryana situated in Wazirabad and district Gurgram by way of sale deed Reg no 9780 dated 29-08-2023 registered in the office of sub registra azirabad, however Mr. Sandeep Jethar S/o Sh. Givan Jethani is buying the said property, the general public are hereby notified that if anyone having any advers claim in respect of said property of whatsoever nature are hereby advised to place their claim within 10 working days from present publication and contact +91 9910732501 with appropriate written evidences. Please note that claims received without written evidence will not b considered.

> SANDEEP JETHAN +91-9910732501

kotak*

पंजीकृत कार्यालयः 27-बीकेर बांद्रा (ई), मुम्बई-400 051

सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सुचना आप नीचे उल्लेखित कर्णदार एवं सह-कर्णदारों में अपनी अचल लम्मिरीयाँ (प्रतिमृतियाँ), जिसका अधिक विवरण यहां नीचे उल्लेखित है, को गिरवी रख कर बैंक/वितीय संस्थान से ऋण की सुविधा हासित की है तथा उसे चुकता करने में विफल हो चुके हैं। आपके द्वारा विफल होने के कारण, आपके ऋण को अनर्जक सम्मिरायों के रूप में वर्गीकृत कर दिया गया था तथा सभी अधिकारों, मालिकाना अधिकारों एवं हितों, लाग, प्राय काव्या के साथ कथित ऋण खाते को यहां नीचे उल्लेखित पृथक सुपूर्वनी के विलेख के मार्फत कोटक महिद्रा बैंक लिमिटेड के यह में सुपूर्व कर दिया गया है, बैंक ने कथित सुपूर्वनी के अनुसार तथा बकाया रकम की वसूर्ती के लिए प्रतिमृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के पुनर्गनंतन तथा सतिस्तृति हित तथा बात्रा प्रकार को वसूर्ती के किए प्रतिमृतिकरण एवं वित्तीय संपत्तियों के अधिन मांग सुवना लाशी की है, अधिनियम की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिमृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अधीन तथा आप तक वैकत्यक सेवा प्रदान करने के माध्या से इसके विषय वस्तु को प्रकाशित किया जा रहा है। कर्जदान, सह-कर्जदान, प्रतिमृत्तीं, ऋणदाता, बकाया रकम, प्राप्ता 13(2) के अधीन मांग सूचना तथा उसके तहत दावा की गई रकम का विवरण यहां नीचे उल्लेखित है:कर्जदान, प्रतिमृत्तीं, ऋणदाता का नाम पूर्व सत्ता, ऋण खाता सं., ऋण रकम सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अधीन मांग सूचना

2. सुपुर्दगी की तारीख
3. मांग सूचना की तारीख
4. बकाया रकम रु. में
1. बजाज फाइनैंस लिमिटेड
(बीएफएल)
2. 29.08.2023 खाता सं., ऋण रकम

मैसर्स दुर्गा प्रसाद पूरन थंद, अपने खत्वाधिकारी के जरिए: एइन मार्केट, वैर तहसील वैर, भरतपुर, वैर, राजस्थान-321408; श्री राजेश गर्ग पिवा श्री पूरन यंद गर्गा, श्रीसती तता गर्गा, श्री पूरन चंद पिता श्री दुर्गा दास पता: टोडे वाला मोहल्ला, वार्ड नं. 18, टोडेवाला मोहल्ला करबा-वैर, तहसील-वैर, जिला भरतपुर, राजस्थान-322408 र् 144.05 वर्ग मीटर परिमाप सम्पत्ति का सम्पूर्ण एवं सर्वांगीण हिस्सा। चौहदीः पूर्वः धर्मेन्द्र एडवोकेट गर्ग का खुला प्लॉट, पश्चिमः श्री मोहन लाल का वैर, भरतपुर, वैर, राजस्थान-321408 ऋण खाता संख्या : 5एस0बीएलएसएफक्यू576439 स्वीकृत ऋण की रकमः

स्वाकृत ऋण का २कमः ऋण खाता संख्या:5एस0बीएलएसएफक्यू576439 में रु. 14,06,999/- (रुपये चौदह लाख छह हजार नौ सौ निन्यानवे मात्र)

23.04.2024 को वकाया एवं भुगतेय साथ में दिनांक 24.04.2024 से सम्पूर्ण श्री राजेश गर्ग भुगतान तक लागू ब्याज। की प्राप्ति के 60 दिनों के अंदर तहत आप ऊपर उल्लेखित प्रावधान में निर्धारित अवधि के अंदर प्रत्यामूत सम्पत्ति को मुक्त कराने के लिए स्वतंत्र है कृपया ध्यान दें कि आप पर कथित अधिनियम की धारा 13(13) के अनुसार हमारी सहमति के बिना बिक्री, पट्टा अथव अन्य किसी भी रूप में ऊपर उल्लेखित प्रतिमूतियों के हस्तांतरण पर निषेध लागू है।

तारीखः 20.07.2024 स्थानः राजस्थान



अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिभिटेड

पंजीकृत कार्यालय: सी-1, फेज - II, फोकल प्वाइंट, राजपुरा टॉउन -140 401, पंजाब निगमित कार्यालय : यूनिवर्सल ट्रेंड टॉवर, प्रथम तल, सेक्टर-49, सोहना रोड, गरुग्राम — १२२ ०१८ हरियाणा

ई-मेल: info@ambergroupindia.com; वेबसाइट: www.ambergroupindia.com दूरणाष : +91 124 3923000; फैक्स : +91 124 3923016, 17, सीआईएन : L28910PB1990PLC010265

> अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड की 34वीं वार्षिक आम बैठक तथा रिमोट

ई–वोटिंग जानकारी की सूचना प्रिय सदस्य(गण)

एतदद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और उसके तहते बनाए गए नियमों के सभी लागू प्रावधानों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015, संशोधितानुसार ("सेबी एलओडीआर विनियम") जो सामान्य परिपत्र संख्या 09 / 2023 दिनांक 25 सितंबर 2023 और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्र ("एमसीए परिपत्र") और परिपत्र संख्या सेबी / एचओ/ सीएफडी / सीएफडी–पीओडी–2 / पी / सीआईआर / 2023 / 167 दिनांक 7 अक्टूबर 2023 और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी अन्य लागू परिपत्रों (सामूहिक रूप में "परिपत्रों" के रूप में संदर्भित) के अनुपालन में, अंबर एंटरप्राइंजेज इंडिया लिमिटेड के सदस्यों की 34वीं वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") **शुक्रवार, 9 अगस्त 2024 को अप. 12:30 बजे** (आईएसटी) वीडियो कॉन्फ्रेंस ("वीसी") / अन्य ऑडियो विजुअल मोड ("ओएवीएम") सुविधा के माध्यम से, सदस्यों की किसी भी भौतिक उपस्थिति के बिना, एजीएम की सूचना में निर्धारित व्यवसायों का लेन-देन करने हेतु आयोजित की जायेगी। निदेशकों की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और 31 मार्च 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष की लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रति के साथ एजीएम की सूचना, 18 जुलाई 2024 को ईमेल द्वारा उन सदस्यों को भेज दी गई है जिन्होंने कंपनी / डिपॉजिटरीज के साथ अपनी ईमेल आईडी पंजीकृत की है। सदस्यगण कंपनी की वेबसाइट www.ambergroupindia.com और स्टॉक एक्सचेंज(जों) की वेबसाइट www.bseindia.com www.nseindia.com पर भी वार्षिक रिपोर्ट देख सकते हैं।

कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित अधिनियम की धारा 108 और सेबी एलओडीआर विनियमन के विनियमन 44 के अनुसार कंपनी जो है वह कंपनी की 34वीं एजीएम बुलाने की सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर ई–वोटिंग की सुविधा उपलब्ध करा रही है, जिसका इस तरह की वोटिंग के माध्यम से लेन-देन किया जा सकता है।

कंपनी ने एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग के साथ-साथ ई-वोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ("केफिन") की सेवाएं ली हैं। सदस्यगण https://evoting.kfintech.com पर "ई–एजीएम – वीडियो कॉन्फ्रेंस" पर क्लिक करके इसे एक्सेस कर सकते हैं और एजीएम की सूचना के नोट्स में दिए गए विवरणों के अनुसार रिमोट ई-वोटिंग क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके शेयरधारकों / सदस्यों के लॉगिन तक पहुंच सकते हैं। सदस्यगण वीसी सुविधा और ई—वोटिंग के लिए निम्नलिखित विवरण नोट कर सकते हैं

क) सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम की सूचना में उल्लिखित निर्देशों का पालन करके वीसी के माध्यम से 9 अगस्त 2024 को एजीएम में भाग लें। ख) कंपनी के सदस्यगण, जो कट—ऑफ तिथि अर्थात् मंगलवार, 2 अगस्त 2024

के अनुसार भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखते हैं, केवल वे ही रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा के साथ-साथ एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने के अधिकारी होंगे।

ग) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि मंगलवार, 6 अगस्त 2024 (प्रात: 9:00 बजे) (आईएसटी) से आरंभ होगी। घ) रिमोट ई-वोटिंग की अवधि शुक्रवार, 8 अगस्त 2024 (सायं 5:00 बजें)

(आईएसटी) को समाप्त होगी। ड.) इसके बाद केफिन द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यल को वोटिंग के लिए निष्क्रिय कर दिया जायेगा। एक बार सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर वोट करने के

बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमति नहीं दी जायेगी। च) कोई भी व्यक्ति जो एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बनता है और कट ऑफ तिथि अर्थात शक्रवार. 2 अगस्त 2024 के अनसार शेयर रखता है और ई-वोटिंग में भाग लेना चाहता है. वह कंपनी के रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट्स, केफिन के पते- सेलेनियम बिलिंडग, टॉवर-बी, प्लॉट नंबर 31 और 32, वित्तीय जिला, नानकरामगुडा सेरिलिंगमपल्ली, हैदराबाद, रंगारेड्डी, तेलंगाना भारत – 500 032, ईमेल आईडी : मअवजपदह / पिदजमबीण्बवउ को एक पत्र या ईमेल भेजकर यज आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है, जिसमें सदस्य का नाम डीपी आईडी / क्लाइंट आईडी और कंपनी का नाम जैसे विवरण प्रदान किये जायं। यूजर आईडी और पासवर्ड डिपॉजिटरीज द्वारा उपलब्ध कराये गये या रजिस्ट्रारों के पास उपलब्ध सदस्य के विवरणों के अनुसार ईमेल या एसएमएस या पत्र के माध्यम से उपलब्ध कराये जायेंगे।

छ) कंपनी एजीएम के दौरान भी ई—वोटिंग सुविधा उपलब्ध करायेगी। रिमोट ई-वोटिंग और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग की प्रक्रिया का उल्लेख एजीएम की सुचना में किया गया है। वी.सी. सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग लेने वाले सदस्यगण जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट पहले से इस्तेमाल नहीं किया है, वे एजीएम के दौरान अपना वोट इस्तेमाल कर सकेंगे।

ज) बैठक के दौरान ई—वोटिंग की सुविधा केवल वी.सी. सुविधा के माध्यम र बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों के लिए उपलब्ध है। यदि किसी सदस्य ने ई-वोटिंग के माध्यम से एजीएम के दौरान अपना वोट इस्तेमाल किया है लेकिन वी.सी. सुविधा के माध्यम से एजीएम में शामिल नहीं हुआ है, तो ऐसे सदस्य द्वारा डाले गए वोट को अवैध माना जाएगा।

जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई—वोटिंग द्वारा अपना वोट इस्तेमाल किया है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन उन्हें एजीएम में दोबारा अपना वोट इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं होगा।

ई—वोटिंग की सुविधा से जुड़ी किसी भी शिकायत के लिये, सदस्यगण info@ambergroupindia.com या cs_corp@ambergroupindia.com पर एक ईमेल भेजकर सुश्री कोनिका यादव, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं।

किसी भी प्रश्न की स्थिति में, कृपया केफिन के सहायक उपाध्यक्ष श्री के. राज कुमार से evoting@kfintech.com पर अथवा टोल फ्री नंबर : 1800-309-4001 पर संपर्क करें।

बोर्ड ने मैसर्स वी झावर एंड कंपनी. प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरीज (सदस्यता संख्य 10300, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस संख्या 11204) की एक फर्म को निष्पक्ष और पारदर्शी प्रविधि से एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया के संचालन के लिये जांचकर्ता के रूप में नियुक्त किया है।

ई-वोटिंग के निर्देशों के साथ एजीएम की सूचना केफिन की वेबसाइट https://evoting.kfintech.com पर उपलब्ध है। विस्तृत एफएक्यू लिंक : https://ris.kfintech.com/faq.html पर प्राप्त किया जा सकता है

स्थान : गुरुग्राम

दिनांक : 19 जुलाई 2024

बोर्ड के आदेशानुसार कृते अंबर एंटरप्राइजेज इंडिया लिमिटेड हस्ता. / -

(कोनिका यादव) कंपनी सचिव तथा अनुपालन अधिकारी



CIN: L74999DL1994PLC061353

पंजी. कार्यालय : एल–314 (भूतल और प्रथम तल) गली नंबर–7, महिपालपुर, नई दिल्ली–110037 ई—मेल: investor.services@educomp.com, वेबसाइट: www.educomp.com

31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का विवरण

	(रूपए लाख में)						
豖.	विवरण	तिमाही समाप्त			वर्ष समाप्त		
₹і.	1445-1	31/03/2024 (अलेखापरीक्षित)	31/12/2023 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2023 (अलेखापरीक्षित)	31/03/2024 (लेखापरीक्षित)	31/03/2023 (लेखापरीक्षित)	
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	57.81	88.37	129.29	413.94	398.23	
2.	अवधि हेतु शुद्धं लाभ / (हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों से पूर्व	(1,595.27)	(304.84)	114.89	(3,380.99)	(8,023.37)	
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि) कर से पूर्व किंतु अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(1,595.27)	(304.84)	114.89	(3,380.99)	(8,023.37)	
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ / (हानि) कर, अपवाद मदों तथा असाधारण मदों के पश्चात	(1,595.27)	(304.84)	114.89	(3,380.99)	(8,023.37)	
5.	कुल व्यापक आय	(1,594.84)	(304.84)	114.76	(3,380.56)	(8,023.50)	
6.	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (अंकित मूल्य रू. 2/– प्रत्येक)	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	2,449.34	
7.	संचेय पुनर्मूल्यन संचेय छोड़कर	(3,13,777.78)	(3,12,182.94)	(3,10,397.22)	(3,13,777.78)	(3,10,397.22)	
8.	प्रतिभूति प्रीमियम खाता	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	1,02,403.24	
9.	शुद्ध मूल्य	(3,06,083.97)	(3,04,499.53)	(3,02,703.41)	(3,06,083.97)	(3,02,703.41)	
10.	प्रदत्त ऋण पूंजी/बकाया ऋण	2,65,665.79	2,65,391.47	2,64,057.84	2,65,665.79	2,64,057.84	
11.	बकाया पुनर्मोच्य अधिमान शेयर	-	-	-	-	-	
12.	ऋण इक्विटी अनुपात	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.87)	(0.87)	
13.	प्रति शेयर (हानि) / अर्जन (असाधारण मदों से पूर्व और पश्चात) (अ—वार्षिककुत)						
	(क) मूल	(1.30)	(0.25)	0.09	(2.76)	(6.55)	
	(ख) तनुकृत	(1.30)	(0.25)	0.09	(2.76)	(6.55)	
14.	1 1 1 7 3 1 1 1		-	-	'-	` -	
15.	ऋणपत्र पुनर्मोचन संचेय		-	-	-	-	
16.	ऋण सेवा व्याप्ति अनुपात	(9.85)	(1.05)	1.96	(4.76)	(14.67)	
17.	ब्याज सेवा व्याप्ति अनुपात	(9.90)	(1.10)	1.90	(4.81)	(14.73)	

उपरोक्त परिणाम सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 33 के अधीन स्टॉक एक्सचेन्जेज में प्रस्तुत किए गए 31 मार्च, 2024 को समाप्त तिमाही और वर्ष हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारकित रूप है। तिमाही और वर्ष हेतु वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेन्ज वेबसाइट नामतः, बीएसई लिमिटेड, (www.bseindia.com) नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाइट (www.educomp.com) पर उपलब्ध है।

कृते एड्युकॉम्प सॉल्युशन्स लिमिटेड हस्ता. /-महेन्द्र खंडेलवाल एड्युकॉम्प सॉल्युशन्स लिमिटेड के स्थान : नई दिल्ली . कार्यवाहक समाधान प्रोफेशनल तिथि : 19/07/2024 REGISTRATION NUMBER:-IBBI/IPA-001/IP-P00033/2016-17/10086

कायालय वसूला आधकारा - प्रथम 08/07/2024 ऋण वसूली अधिकरण, प्रथम तल, सुधरमा-।।, किसान भवन के सामने, लाल कोठी शॉपिंग सेन्टर, टोंक रोड, जयपुर (राजस्थान) (क्षेत्राधिकार राजस्थान राज्य)

वसूली प्रमाण पत्र संख्या: 573/2020

के प्रयास में भाग नहीं लिया जावेगा।

: 19.07.2024 नोटिस मौके पर (कोर्ट कमिश्नर द्वारा) निरीक्षण की तिथि : 08.08.2024 अमानत राशि एवं रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि : 14.08.2024 : 22.08.202 र्ड—ऑक्शन

<u>फार्म संख्या 13</u> रिपोर्ट तिथि- 30.08.2024 (आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची के नियम 38, 52(2) के अन्तर्गत)

प्रकरण का उनवानः

Indian Overseas Bank बनाम M/s Dhanji Fuels व अन्य विक्रय की उदघोषणा

यह कि माननीय पीठासीन अधिकारी, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के द्वास एक वसूली प्रमाण पत्र संख्या 573/2020 जो कि मूल आवेदन संख्या 672/2018 रं दिनांक 05.10.20 को सभी प्रतिवादीगण के विरुद्ध 19,43,352.28 रूपये की वसूली हेतु जारी किया गया है, जो राशि प्रमाण पत्र के ञुसार ब्याज, वाद, ब्यय एवं खर्चो तथा यह के अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा संलग्न अनुसूची में वर्णित बन्धकशुदा संपत्ति को प्रमाण पत्र की संतुष्टि हेतु विक्रय किये जाने हेतु आदेशित किया गया है।

तथा यह कि प्रमाण पत्र के अनुसार दिनांक 24.05.2024 तक ब्याज, वाद व्यय व खर्चों सहित कुल राशि (वसूल की गई राशि के समायोजन के पश्चात् 33,51,048.78/- रूपये एवं भविष्य का ब्याज बकाया होते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य बैंक एवं वित्तीय संस्थानों के बकाया की जानकारी नहीं है। रतदद्वारा यह सुचित किया जाता है कि किसी स्थगन आदेश की अनुपस्थित में संदर्भित सम्पत्ति का विक्रय C1 India Pvt. Ltd., 3rd Floor, Plot No.68, Secto 44, Gurgaon, 122003, Haryana के द्वारा ऑनलाईन नीलामी के माध्यम से दिनांक 22.08.2024 को प्रात: 11 बजे से सांय 3 बजे तक किया जायेगा यह विक्रय उपरोक्त प्रतिवादी की सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है, का किया जावेगा एवं उक्त संपत्ति पर दायित्व एवं दावे जो अभिनिश्चित कि

गये है, वे प्रत्येक लॉट के सामने अनुसुचित में विनिर्दिष्ट है। ाम्पत्ति का विक्रय ''जहां है जैसी स्थिति में हैं'' के आधार पर किया जावेगा। सम्पत्ति का विक्रय अनुसूची में दिये गये लॉट के अनुसार किया जावेगा। यदि सम्पत्ति किसी एक भाग के विक्रय से वसूली राशि संतुष्ट हो जाती है तो शेष संपत्ति के विषय में विक्रय तुरन्त रोक दिया जायेगा। यदि किसी भी लॉट का विक्रय प्रारभ करने रं पूर्व उक्त प्रमाण पत्र में वर्णित बकाया ब्याज, लागत (विक्रय की लागत सहित) विक्रय निष्पादित करने वाले अधिकारी को अदा कर दी जाती है या उसकी संतृष्टि वे

्र लिए यह प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है कि प्रमाण पत्र की राशि ब्याज व खर्चे सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता को अदा कर दी गई है तो विक्रय रोक दिया जायेगा। विक्रय हेतु जनसाधारण को स्वयं अथवा अधिकृत प्रतिनिधी के जरिए बोली लगाने हेतु आमंत्रित किया जाता है। किसी भी अधिकारी या अन्य व्यक्ति जो इस विक्रय वे संबंध में प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अपना कर्तव्य निर्वहन कर रहा है . के द्वारा किसी भी रूप में इस संपत्ति के विक्रय में बोली में अथवा संपत्ति के अर्जन अथवा अर्ज

विक्रय आयकर अधिनियम 1961 की द्वितीय अनुसूची में वर्णित शर्तो तथा इसके अन्तर्गत निर्मित नियमों एवं निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों के अध्ययी **होगाः— (1)** संलग्न सूची में दिये गये विवरण अधोहस्ताक्षरकर्ता को प्राप्त श्रेष्ठ जानकारी के अनुसार अंकित है किन्तु अधोहस्ताक्षरकर्ता उदघोषणा में किसी त्रुटि असत्य अथवा चूक के लिये कर्त्नई उत्तरदायी नहीं होगा ! (2) सम्पत्ति का **आरक्षित मूल्य 3,25,00000 /— तीन करोड़ पग्नीस लाख रूपये** होगा जिससे क मूल्य में सम्पत्ति विक्रय नहीं की जायेगी। (3) वह राशि जिसके द्वारा बोली को बढ़ाया जा सकेगा 1,00,000 / — रुपये व इस राशि के गुणक में होगी, तथा बोली की राशि अथवा बोलीदाता के विषय में विवाद उत्तम्न होने पर वह लॉट तुरन्त ही पुन- नीलामी के लिए रख दिया जायेगा। (4) इच्छुक बोलीदाताओं को ऊपर वर्णित वेस साईट पर पंजीकृत करनात वाथ पहचान निब्द व पासवर्ड प्राप्त करना आवश्यक होगा जो कि सेवा प्रदाता डाय एकाब्य कराया जायेगा। जो बोली लगाये जाने के लिए अनिवार्य है। (5) बोलीदाता को आरक्षित मूल्य की 10 प्रतिशत राशि वसूली अधिकारी–द्वितीय, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर के पक्ष में डिमाण्ड डाफ्ट के जरिये जम ज्यायी जा सकेगी अथवा HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur IFSC Code: HDFC0001843 में संघारित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवाया ज करवायी जा सकेंगी अथवा HDFC Bank Ltd., Sodala, Jaipur IFSC Code: HDFC0001843 में संघारित खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवाया जा सकेंगी। अमानत राशि जमा करवे जाने का प्रमाण, पेनकार्ड की सत्यापित प्रतिलिपि, पते का प्रमाण तथा प्राधिकार पत्र (यदि वे किसी अच्य व्यक्ति अथवा संस्था की ओर से बोली में माग ले रहे हैं) प्रस्तुत करने होंगे, जो कि सेवा प्रदाता की ई—मेल आई.डी. पर भी भेज सकते हैं। (6) किसी भी लींट के लिए सर्वीच्य बोलीदाता को केंता घोषित कर दिया जावेगा बशर्ते कि वह बोली लगाने के लिए कानूनन योग्य है एवं उसके द्वारा लगायी गयी बोली आरक्षित मूल्य से कम नहीं है। उच्चतम बोली को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार अधोहसताक्षरकर्ता के विवेकाधीन होगा यदि प्रस्तावित मूल्य स्पष्टतः हतना अपर्याप्त हो जिसे प्राप्त करना अनुचित हो। (7) लिखित कारणों से अधोहस्ताक्षरकर्ता को आधीनियम की द्वितीय अनुसूधि के प्रावधानों के अधीन विक्रय को स्थितित करने का अधिकार प्राप्त हागा। (8) अवल सम्पतित के मामले में सम्पतित का केंता घोषित किये जाने वाले व्यक्ति केंद्री पर परिश्वितियों में 24 घण्टे में क्रम मूल्य की 25 प्रतिशास परिश्व एवं को समायीजित करते हुए जमा करवायी जावेगी जो बैंक के उत्तर खाता संख्या 50200074019804 में जमा करवायी जावेगी तथा विक्रय को संपूर्ण राशि क्रेता हारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जिर्च के दिवस तक जमा करवी होगी वार्यीत तथा विक्रय को संपूर्ण राशि क्रेता हारा वसूली अधिकारी ऋण वसूली अधिकरण के पक्ष में जिसे के उत्तर अधिकारी आप अधीन किया किया परिश्व में विवास कर विज्ञा जा प्रत्या करवा प्रत्या का कार्याला प्राप्त कार्याला कार्याला होगा। यदि 15 वे दिवस तक जमा करवी होगी जिसमें वह दिन शामिल नहीं होगा। यदि 15 वे दिन सर्विवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कार्याला होगे अधीक करवा जाने कर विवास वाला होगे। अपरे अधिक करवा जानेगा। (बोर के प्रयाला में अधीकता है के प्रत्या कारणा होगे करके करवा जानेगा। (बोर प्राप्त में किया में अधीन संविवार या अन्य अवकाश हो तो उसके पश्चात प्रथम कार्याला होगा। (बोर किया वार्याला करवा वार्याला करवा वार्याला करवा करवा होगा। (बोर किया में अधीन संविवार या अन्य अवकाश होगे वार्याला करवा होगा। (बोर किया करवा वार्याला करवा वार्याला करवा वार्याला करवा वार्याला करवा वार्याला करवा वार्याला कर विचा जा सकेगा। उत्तर अवधि के भीतर भुगाना में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विकार गति प्रशास प्रशास के स्वि किया जा सकेगा। उत्तर अवधि के भीतर भुगाना में व्यक्तिक्रम किये जाने पर सम्पत्ति विकार गतीन उदारोगणा जारी करके कर दिया जावेगा। (**9**) ऐसी रिश्वि गं जमाशुदा राशि को यदि अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा उचित समझा जावें तो विक्रय के खर्चे समायोजित करने के पश्चात् जब्त सरकार कर ली जावेगी एवं उस रिश्वित गं क्रेता के उक्त सम्पत्ति या राशि के किसी भी भाग के विषय में अधिकार जब्त हो जायेगें। सफल बोलीदाता को प्रथम 1000 / — रूपये पर 2 प्रतिशत एवं उसके पश्चार शेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से पोउण्डेय फीस का मुगतान करना होगा। (10) प्रमाणपत्रधारी बैंक के द्वारा इच्छुक बोलीदाता को दिनांक 08.08.2024 प्रातः 10.00 से सांय 4.00 बजे तक सम्पत्ति के निरीक्षण की अनुमति दी जावेगी जिसके लिए इच्छुक बोलीदाता Smt. Meenu Modi, Assistant General Manager, Indian Overseas Bank, Bani Park Branch, Civil Lines, Jaipur से मोबाईल संख्या 9928301555 पर सम्पर्क कर सकते है। (11) यदि इच्छुक बोलीदाता इन्टरनेट के

जरिये. बोली न लगा सकते है तो वे नोडल अधिकारी / सेवाप्रदाता के माध्यम से नीलामी में भाग ले सकते है। (12) प्रस्तावित बोलीदाता C1. India. Pvt. Ltd., 3rd

Floor, Plot No.68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana, सम्पर्क— Mr. Bhavik Pandya 886682937/7291891124/25/26 के ऑनलाईन प्रशिक्षण का लाम उठा सकते है जो वैब साईड www.bankeauctions.com पर उपलब्ध है। (13) अमानत राशि जमा कराये जाने एवं रजिस्ट्रेशन की अन्तिम तिथि 14.08

2024 को 3.00 बजे सांय तक है। (14) आनलाईन नीलामी सेवाप्रदाता C1 India Pvt. Ltd. 3rd Floor, Plot No.68, Sector-44, Gurgaon, 122003 Haryana के द्वारा दिनांक 22.08.2024 को प्रातः 11 बजे से सांय 3 बजे तक सम्पादित की जावेगी। यदि नीलामी की राशि सांय 3 बजे के उपरांत 10 मिनट के पश्चात् मी नहीं बढ़ायी जाती है तो नीलामी को समाप्त कर दिया जायेगा। (15) धरोहर राशि का मुगतान असफल बोलीदाताओं को एच.डी.एफ.सी. के द्वारा किया जायेगा। सम्पत्ति का विवरण विवाद अगर कोई है जो कि सम्पत्ति वे सम्पत्ति या उसके किसी भी प्रकार संपत्ति के मालिक व अन्य सहमालिक का नाम सहित बेची जाने iaंध में आगे आया है एवं अन्य कोई ज्ञ के भार का विवरण केसी भाग पर राजस्व वाली सम्पत्ति का विवरण जहां सम्बन्धित व्यक्तिक्रमी जो किसी जिसके लिए सम्पत्ति विशिष्टियों जो कि इसके मुल्य एवं अन्य व्यक्ति से सह- मालिक है निर्णित ऋणी संख्या १ की अचल संपत्ति:-जानकारी नहीं जानकारी नहीं जानकारी नहीं Commercial Land at Khasra No. 5438/2, NH-8,

Village Manoharpur, Tehsil: Shahpura, District-Jaipur. Rajasthan in the name of Lal Chand Aswa (Defendant No.3) admeasuring 2925 square meters.

मेरे हस्ताक्षर एवं सील द्वारा दिनांक 08/07/2024 को जारी। सील

ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर

■IndiaShelter इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिभिटेड मांग सूचना

पंजीकृत कार्यालय : 6ठवां तल, प्लॉट-15, सेक्टस-44, इंस्टीट्यूजनल एरिया, गुड़गांव, हरियाणा-122002, **शाखा कार्यालय** : सिंगला प्लाई स्टोर्स, प्रथम तल, रेड रोड, वंद चौक, कुरुक्षेत्र, हरियाणा – 136118, **शाखा कार्यालयः** होत नं.1, प्रथम तल, पार्चनाथ प्लाजा—II, प्लॉट नं. 2, नीलगिरि कमरियल सेंटर, मानसरोवर योजान देल्ली—मुरादाबाद रोड, मुरादाबाद—उप्र—244001, **शाखा कार्यालय**ः दुकान नं. 6, ऊपरी भूतल, सी.आर. मॉल, चर्च रोड, राम नगर कॉलोनी, आगरा 282002, **शाखा कार्यालय** 688/552, ऊपरी भूतल, कैलाशपुरी अहमदपुर, बेनासी, आलमबाग, लखनऊ, इको गार्डन के पास, उत्तर प्रदेश, पिन—226005, **शाखा कार्यालय**ः प्रथम तल, गुरुद्वारा के सामने जाब नैशनल बैंक के पास. चैती फार्म, बाजपर रोड. काशीपर, उत्तराखंड–244713. **शाखा कार्यालय:** 173. नेहरू नगर, प्रथम तल, बी.एस.एम. चौक, रुडकी – 24766 143, द्वितीय तल मेन रोड की

पणांव नशनल बक क पाल, बता छान, बाजपुर रोड, काशापुर, उत्तराखड-244713, शाखा कार्यालय 173, गहरू नगर, प्रथम तल, बार्सर्य- चाक, रुड़का – 247667, शा खा कार्यालय यूएन. टावर, द्वितीय तल, 18–ईसी रोड, यूपीसीएल कार्यालय के पास, सर्वे चौक, देहरादून – 248001, शाखा कार्यालय 143, द्वितीय तल मेन रोड की						
और (आईसीआई सीक के ऊपर), सिविल लाईस, बरेली— 243001 वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिमृतिकरण एवं पुनिर्निर्मण तथा प्रतिमृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की बारा 13(2) के अंतर्गत सूवना। एतद्वारा सुवित किया जाता है कि निम्नालिखत ऋणकर्ता जिन्होंने इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉमीरेशन ति. (आईएसएफरीएल) से ऋण प्राप्त किया और आईएसएफरीएल को अपने ऋण की इक्वेटेड मासिक किरतीं (ईएसआई) का भुगाता करने में असफल रहे और यह कि नेशनल हाजसिंग बेंक द्वारा जारी दिवा—निर्देशों के अनुसार उनके ऋण खाते गैर—निमादन आसित के रूप में वर्गीकृत कर दिये यो। ऋणकर्ता(ओं) ने आईएसएफरीएल के पास अचल सम्मित्यों के प्रतिमृति प्रकाशित के हैं जिसके विकला यहां इसमें नीचे जल्लिखत हैं। ऋण तथा ऋणकर्ता(ओं) हाथा साथ ही जनसामन्य को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि अओहस्ताक्षरकर्ता ने आईएसएफसीएल के अधिकृत प्राधिकारी, प्रतिमृति कित प्रवर्ता अधिनियम 2002 के प्रकाशों के तहत निम्नालिखत ऋणकर्ता(ओं) के विरुद्ध कार्यवाद्धी प्रारम्भ कर से हैं और निम्नालिखत विवरणों के अनुसार इस अधिनियम के तहत सूचना जाता के स्वर्त कार्या विश्व के कि तहत निम्नालिखत ऋणकर्ता(आं) के विरुद्ध कार्यवाद्धी प्रसम्भ कर से हैं और निम्नालिखत विवरणों के अनुसार इस अधिनियम के तहत सुका जोते हैं। यदि निम्नालिखत क्रयणकर्ता(आं) अपने सम्मुख अकित कार्या वे व्यवसार कि कि (सार) दिनों के मीतर करने में असफल रहते हैं तो अधीहरसाक्षरकर्ता संपत्ति का अधिव्रहण करने तथा उसकी विक्रों करने वहत सम्प्रति अधीवियम के विवर करने के पर में असफल रहते हैं तो ओडिस्ताक्षरकर्ता संपत्ति का अधिव्रहण करने तथा उसकी विक्रों करने वहत सम्मान्य की अधीव्यस की धारा 13 की उपन्यारा (4) के तहत प्रतिषुत्त ऋणकर्ता संपत्ति का अधिव्रहण करने तथा उसकी विक्रों करने वहां शिक्षर सम्परित्त और सम्मान्य की धारा 13 की उपन्यारा (4) के तहत प्रतिषुत्त ऋणकर्ता सम्पत्ति की विज्ञों करने वहां शिक्षर सम्पत्तियाँ के साथ संव्यवहार न करने का परामर्श दिया जाता है।						
ऋगकर्ता(ओं)/गारंटर/विधिक उत्तराधिकारी/ विधिक प्रतिनिधि के नाम, ऋग खाता सं.	एनपीए तिथि / मांग सूचना	ਹ ਿੰਗ	प्रतिश्रुत परिसंपत्ति(यों) (अचल संपत्तियों) का विवरण			
श्री / श्रीमती संतोष / श्री / श्रीमती भूपेंद्र सिंह ऋण खाता संख्या / एपी संख्या HL11CHLONS000005003929/AP-0891605	10-जुलाई-2024 / 10-जुलाई-2024	रु. 49095122 /— (रुपये चार लाख नब्बे हजार नी सी इक्यावन और बाईस पैसे मात्र) रु. 49095122 /— (रुपये चार लाख नब्बे हजार नी सी इक्यावन और बाईस से मात्र)	मकान का पूर्व टुकड़ा और पार्सल, माप 11277 वर्ग गज, 2 बिस्चे, खेवट नंबर 196, खाता नंबर 261 से 271, खरसा नंबर-857 मिन=2-8, 856 मिन=2-8, 857 मिन=2-14, 857 मिन=2-14, 2002 3-4, 2003 4-4 2004 5-4, वाका रुकबा, पृष्टी जहां, आबादी शास्त्रन कॉलोनी के भीवर एम.सी. सीमा सोनीपत हरियाणा 131001, सीमा- फूर्य- दीगर का जॉट, परिवन्म गली 17 फुट, जत्तर- पूराम का घर, दक्षिण- खाली प्लॉट, दीगर का प्लॉट।			
श्री / श्रीमती ममता कश्यप / श्री / श्रीमती प्रेम शंकर, ऋण खाता संख्या / ए.पी. संख्या LAMRCLLONS000005039266/AP-10083946	10-जुलाई-2024 // 10-जुलाई-2024	रु. 811828.06/— (आठ लाख ग्यारह हजार आठ सी अझईस रुपये और छह पैसे मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ में 10 जुलाई 2024 से व्याज और मुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	खसरा संख्या 1832 का पूरा टुकड़ा और पार्सल क्षेत्रफल 126.24 वर्ग मीटर जो गांत लाकड़ी फजलपुर तहसील और जिला—मुरादाबाद उत्तर प्रदेश —244001 में स्थित। सीमा:— पूर्व — राजेंद्र शर्मा का मकन पश्चिम — श्रीमती लीलावती का मकान और 9 मीटर चीड़ी सड़क, उत्तर — ओम प्रकाश म्हन्नागर का मकान, दक्षिण — राम गोंपाल का प्लॉट।			
श्री / श्रीमती संतोष / श्री / श्रीमती विकास शर्मा / श्री / श्रीमती विजय कुमार / श्री / श्रीमती रघुबीर । ऋण खाता संख्या / एपी. संख्या LAHCLLONS000005076676 /AP-10180622	10-जुलाई-2024 / 10-जुलाई-2024	रु. 1086078.40/— (रुपये दस लाख छियासठ हजार छिहतर और चालीस पैसे मात्र) ९ जुलाई 2024 को देय, साथ में 10 जुलाई 2024 से व्याज और मुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	जमाबंदी वर्ष 2019–20 का पूरा पीस और पासील खेवट संख्या 1754 खाता संख्या 2019 पतंग 10 कुल रकवा 31 कनाल 12 मेड, बया 19/2844 पार्ट बक्दान्य 42 मले अपने मीटर याडी वाक्टान्य मीडम कॉलोनी सफीदों, जीद, हरियाणा में स्थित सीमा:—पूर्व – टेकराम का खोट, पश्चिम – ऋषिपाठ का प्लॉट, पश्चिम – मुमार बंद का प्लॉट, पश्चिम में सुमार चंद का प्लॉट, पश्चिम में सुमार चंद का प्लॉट।			
श्री/श्रीमती सुखमीरा देवी /श्री/श्रीमती हरदेश कुमार /एमआरजे श्रीमती नारायण सिंह ऋण खाता संख्या/ए.पी. संख्या HL28CHLONS000005024284/AP-10040382	10-जुलाई-2024 / 10-जुलाई-2024	रु. 435994/— (चार लाख पैतीस हजार नौ सी चौरानबे रुपये मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ ही 10 जुलाई 2024 से व्याज और बुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।	प्लॉट का पूर्व हिस्सा और खसरा नंबर—88/1, 62/0 वर्ग मीटर का क्षेत्राधिमापन जो दुर्गा नगर नगला पटियागय तहसील और जिला आगरा, उप-282005 में स्थित है। सीमा- पूर्व- माधुरी सिंह का प्लॉट, परिचम — 12 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर – बलवीर का मकान, दक्षिण — 20 फीट चौड़ी सड़क			
श्री / श्रीमती संगीता पांडे / श्री / श्रीमती पदन कुमार ऋण खाता संख्या / ए.पी. संख्या HLFZCHL0NS000005071484/AP-10170613	10-जुलाई-2024 // 10-जुलाई-2024	रु. 947343/— (नौ लाख सैतालीस हजार तीन सी तैतालीस रूप्ये मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ ही 10 जुलाई 2024 से व्याज और मुगतान की तिथि तक अन्य युल्क और लागत।	खसरा संख्या 260 खा. के सभी दुकड़े और पासंत. 538 वर्ग फीट माप जो गांव- मानिकपुर-मीचपुर परगना बरीसा, तहसील- सदर, युत्तानपुर, उत्तर प्रदेश-228151 में स्थित है. सीमा:- पूर्व- नंबर हाजा विक्रंता का शेष भगा, परिचम- सतीश कुमार गुप्ता का पांच. उत्तर राह्म प्रदेश- उत्तर सामा के प्राप्त का भी भगा, परिचम- सतीश कुमार गुप्ता का पांच. उत्तर राह्म प्रदा 16 फीट, दक्षिण- राम कुमार और अन्य का खेत			
श्री / श्रीमती संगीना देवी / श्री / श्रीमती विजय सिंह / ऋण बाता संख्या / ए.पी सं. HL26LILONS000005030010 & LAKSCLLONS000005056710/AP- 10048526& AP-10131839	10-जुलाई-2024 / 10-जुलाई-2024	७. 1362948/— (तेरह लाख बास्त हजार नौ सी अइतालीस रुपये मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, 10 जुलाई 2024 से व्याज और बुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत सहित	खरारा संख्या 40 एए मिन का पूरा टुकड़ा और पासंल ६८०६ वर्ग मीटर में फैला हुआ है जो गांव- स्मिपुर कटियापुत परगना मावर चिकिया, तहसील रामनगर, किला नैनीताल, उत्तराखंड में रिश्वत है सीमा- पूर्व-कांता देवी का मकान का प्लॉट, परिवम- वीर्यद्र सिंह का प्लॉट, उत्तर-अन्य का प्लॉट, दक्षिण-20 फीट चौड़ी सड़क,			
श्री / श्रीमती ईशा / श्री / श्रीमती प्रवीण कुमार ऋण खाता संख्या / ए.पी. संख्या HL26CHLONS000005032903/AP-10061039	10-जुलाई-2024 / 10-जुलाई-2024	रु. 893716 /— (आठ लाख तिरानवे हजार सात सी सोलह रुपये मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ में 10 जुलाई 2024 से व्याज और मुगतान की तिथि तक अन्य युक्क और लागत।	खाता संख्या 208 खसच संख्या 167 मिन, ग्राम् चकरपुर, तहसीत बाजपुर जिला उधम सिंह नगर, चत्तराखंड के सभी दुकड़े और पार्सत। सीमा:- पूर्व- मेव राम का लॉट परिचम- कुंदन का प्लॉट और 5 फीट चौड़ी सड़क, उत्तर- सुरेश अग्रवाल का प्लॉट, दिक्षिण- कुंदर पाल का मकान			

ए मिन का पूरा टुकड़ा और टर में फैला हुआ है जो गांव-रगना भावर चिकिक्य, तहसील तज्ज ज्वाराखंड में स्थित है, देवी का मकान का प्लॉट, का प्लॉट, उत्तर-अन्य का प्लॉट, ो सड़क, जपर जिला उधम सिंह हर्डे और पार्सल। सीमा:-52.67 वर्ग मीटर माप के सभी पीस और पार्सल श्री/श्रीमती सुमन सैनी / श्री/श्रीमती राकेश कुमार/ रु. 2204175.50/— (रुपये बाईस लाख ो मंजिला, खुर्जा पुलिस चौकी के सामने (जी.टी. रे चार हजार एक सौ पिचहत्तर और पचास गेडकर) कस्बा– सिकंदराबाद, तहसील सिकंदराबा 10-जुर्लाई-2024 श्री / श्रीमती देव्यांशा पैसे मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ में वला— बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश 203205 में स्थित है

तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।

रु 586959 21 / - (पांच लाख क्रियासी

12' चौडी, दक्षिण-चंद्र शेखर का प्लॉट

वेवट /खाता संख्या 126 / 154 मु. संख्या ७ कि

ख्या 18/2(1–1) 22/2(4–17) 23(7–13 संख्या 8 किला संख्या 2/2(4–17) 3(7–13

'-13) 9/1 (3-0), किता 7रकबा तदादी-:

कनाल, 8,734 जी 14 मरला का मारा, रकता तादार 8 मरला (240 वर्ष गज), पाका रिवाना मोजा टीकरी गुण्जर, तहसील पलवल, जिला—पलवल, हरियाणा—121102 में स्थित। सीमा— पूर्व — इंदर पुत्र बजान का मरकान, पश्चिम — संज्ञा पुत्र करण संपत्ति, जत्तर — सुभाष पुत्र करण सिंह का मकान, दक्षिण — वेदपाल का रोड और एलींट ग्याता संग्राम—254 740 के स्त्री रकडे और पार्कल एम

वाता संख्या-738/740 के सभी टुकड़े और पार्सल

iaर-51 किला नंबर-25 / 1/7-4) 25 / 2 (0-16)

नवर-51 किला नवर-25/17/-4),25/2 (0-16) (भ नंबर-53 किला नंबर-1/2(1-1) 10/(3)-15) 10/2(3-15) एम नंबर्स्ड किला नंबर-5/1 (5-7) 5/2 (2-13) 6(7-9) प्रेसरा (219 वर्ष गंज) हिरोया मोहल्ला बढोली, तहसील और जिला-पलवल, हरियणाना-121(32 में हिल्ला (सीमा:- पूर्व-खाली रोह,

तरवाणा=121102 में स्थित | सामा:— पूर्व=खाला स श्चिम—एनए, उत्तर—एनए, दक्षिण—एनए, व्येट नं 513/6 खतौनी नं 539/5 मु. नं 54 किला

17 / 2(0-13) 23 / 2 (1-17) 24(7-9) 25(7-7) 月

4 किला नं 5/1 (5-12) मुनं 82 किला नं 11/2

(1-7) 19/2/3(2-10)4-0) 21/1(4-0) मु नं 85 किला नं 1/1(4-0) 1 0/2(1-1 9) किता 11 का समस्त दुकड़ा और पास्त्ल, जिसका मापन क्षेत्र 8.26 मारले या 250 वर्ग गज है जो वाका मौजा फुलवारी

तहसील और जिला—पलवल. हरियाणा—121102 में स्थि

ग्रीड़ी सड़क।

देवी का मकान।

8. 1001.2842 / - (दस लाभ एक रूपार पा पुजा के स्ति तह एसादपुर जिला आगरा उत्त-सी बयानके रूपये मात्र) 9 जुलाई 2024 के नरायब बसती. तह एसादपुर जिला आगरा उत्त-देय. साथ में 10 जुलाई 2024 से व्याज प्रदेश का पूरा दुकड़ा और पासंल 1820 वर्ग मीट-और युगतान की तिथि तक अन्य शुक्क भी. सीमा: पूर्व - रास्ता 8 फीट, परिचम- रास्ता 1 और लागत।

। सीमा:– पूर्व– 8 फीट चौड़ी सड़क, पश्चिम–किश सेंह का मकान, उत्तर–देवेंद्र का मकान, दक्षिण–11 फी

असरा नंबर 5646 रकबा 37 वर्ग मीटर 0.00.

खसरा नवर 5646 रकवा उर पन नाटर 0.0037 हेक्टेयर से संबंधित समी पार्सल और जमीन के दुकड़े, ग्राम रसूलपुर, परगना—पछवादून, तहसील—विकास नगर, जिला देहरादून में स्थित। सीमाः— पूर्व की

ओर:- जवाहर की जमीन पश्चिम:- विक्रेता

पास बरेली यूपी—243001 में स्थित है। सीमाः— अन्य व्यक्ति का प्लॉट, पश्चिम— नरेंद्र पालू का म

उत्तर— रास्ता 20 फीट चौड़ा खाम, दक्षिण— मुन

खाता संख्या / ए.पी. संख्या 10 जुलाई 2024 से ब्याज और भूगतान की जाला— बुलदर्शहर, उत्तर प्रदश 203203 न रखत सीमा:— पूर्व — फारिक, अव्वल और ओमी की दुका पश्चिम — दरवारी की दुकान और मकान फते सिं LAGZVLLONS000005074041/AP-1017504 तिथि तक अन्य शुल्क और लागत। रोड सिकंदराबाद कूड़ा 40 फी इक्षिण – बब्बन का मकान 10-जुलाई-2024 🕏 952432.51 /— (रुपये नौ लाख बादन श्री/श्रीमती बोबी देवी/ खसरा संख्या 235/2/4 ग्राम केहड़ा के हिस्से व हजार चार सौ बत्तीस और इक्यावन पैसे पूरा टुकड़ा और पार्सल वर्तमान में वार्ड संख्या 1 श्री/श्रीमती अवनीश कुमार ऋण खाता संख्या/ ए.पी. संख्या कृशवना आर्थ, पराना—मंगलौर, तहसील लस्क जिला हरिद्वार में स्थित। सीमा:—पूर्व—विक्रेता क् संपत्ति, पश्चिम चीनी मिल की जमीन, उत्तर—सङ् 10-जुलाई-2024 मात्र) ९ जुलाई २०२४ को देय, साथ र 10 जुलाई 2024 से ब्याज और भुगतान की HLROSHLONS000005014377/AP-10034871

श्रीमती आकाश। 10-जुलाई-2024 पैसे मात्र) ९ जुलाई-2024 को देय, साथ ऋण खाता संख्या / ए.पी. सं. ही 10 जुलाई–2024 से ब्याज और भुगतान LA11CLLONS000005055097/AP- 1012285 की तिथि तक अन्य शल्क और लागत।

थी /श्रीमती लता /श्री /

रु. 973983.86/ (नौ लाख तिहत्तर हजा[,] श्री/श्रीमती रीन्/ श्री / श्रीमती पतीर नौ सौ तिरासी और छियासी पैसे मात्र) 09 जुलाई–2024 को देय, साथ ही ऋण खाता संख्या/ए.पी. संख्या HI 11RNI ONS000005038813/AP-10081949 जलाई-2024 से ब्याज और भगतान की थि तक अन्य शुल्क और लागत।

10-जुलाई-2024

श्री / श्रीमती बालेश / 10-जुलाई-2024 श्री / श्रीमती हरेंद्र सिंह हजार पांच सौ पच्चीस और सात पैसे मात्र) ऋण खाता संख्या / ए.पी. सं. LA11VLLONS000005065594/AP- 10153799 10-जुलाई-2024 जुलाई-2024 को देय साथ ही जुलाई–2024 से ब्याज और भुगतान की तथि तक अन्य शुल्क और लागत।

श्री / श्रीमती आशा देवी */* 10-जुलाई-2024 थ्री / श्रीमती बचन सिंह हजार चार सौ छह एवं सैंतीस पैसे मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ में 10 जुलाई 10-जुलाई-2024 ऋण खाता संख्या/ए.पी. संख्या LA24CLLONS000005013544 & 2024 से ब्याज और भगतान की तिथि तक HL24CHLONS000005013759/ ान्य शुल्क और लागत।

10-जुलाई-2024

10-जुलाई-2024

AP-10037224& AP-10036633 रु. 543475.18/— (पांच लाख तैतालीस हजार चार सी पिचहत्तर एवं अट्ठारह पैसे मो. विहार मान नगला, संजय नगर, त्रिमूर्ति मवन श्री/श्रीमती रेखा देवी / श्री/श्रीमती ऋतिक कश्यप / श्री / श्रीमती मनु कश्यप ऋण खाता 10-जुर्लाई-2024 मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ में LA11CLLONS000005027285/AP-10046935 10 जुलाई 2024 से ब्याज और भूगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत।

10-जुलाई-2024 रु. 1001292 / - (दस लाख एक हजार दो दुकान नंबर ई1 और ई2 केएच नंबर 1547 मोर श्री / श्रीमती रामवती देवी / श्री / श्रीमती महेश चंद्र बघेत 10-जुर्लाई-2024 ऋण खाता संख्या/ए.पी. संख्या LA28VLLONS000005092160/AP-10218229

श्री / श्रीमती अनीता देवी / श्री/श्रीमती मनोज कुमार/ ऋण खाता संख्या/ए.पी. संख्या HLROCHLONS000005037606/AP-10073888

श्री / श्रीमती जुनेजा एच / श्री /श्रीमती साहिल दहन/ श्री / श्रीमती पंकज eण खाता संख्या / ए.पी. संख्या LAHSCLLONS000005050719/AP-10117195 **रु. ९३२.८४४ / – (नौ लाख बत्तीस हजार** खसरा नं 169 का पूरा टुकडा और पार्सल, क्षेत्रफ आठ सौ चौवालीस रुपये मात्र) 9 जुलाई 1500 वर्ग फीट या 139,405 वर्ग मीटर ग्राम खानमपु कसौली, पराना पंगलीर, तहसील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखंड 247656 में स्थित। सीमा:— पूर्व-कर्मपाल की शेष भूमि, पश्चिम— मंदिर सरस्वती म 2024 को देय, साथ में 10 जुलाई 2024 से ध्याज और भुगतान की तिथि तक अन्य शुल्क और लागत। उत्तर— 10 फीट चौड़ा रास्ता, दक्षिण— श्या की भमि।

10-जुलाई-2024 के .7438839/- (सात लाख तैतालीस कंचर नंबर 88, खाता नंबर 91, कुल ताड़ी 2 कनाल, किया आठ सी अझसी रूपये और 8 मरले, गैर मजरूआ 4/13 का हिस्सा, बागदार 14 पंजालीस पैसे मात्र) 9 जुलाई 2024 को देय, साथ में 10 जुलाई 2024 से व्याज जीर तथा को तिथि तक अन्य का मकान, पश्चिम- गर्वी 23 फीट, जुतार- जसमीर का मकान, पश्चिम- गर्वी 23 फीट, जुतार- जसमीर का प्लॉट दक्षिण- ओम सिंह का प्लॉट

इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्राधिकृत अधिकारी) स्थान : नॉर्थ, दिनांक : 20–07–2024